



बेंगलूर के केलकता नाइटराइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर

ने रविवार रात यहां कहा कि पहले सात मैच में उनकी टीम के प्रदर्शन के देखते हुए किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी टीम आईपीएल सात के खिताब जीतेगी लेकिन इसका पूरा श्रेय सारी टीम को जाता है।

पहले सात मैचों में से पांच में हारने वाले केकेआर ने इसके बाद लगातार नौ मैच जीते जिनमें फाइनल भी शामिल है जिसमें उसने फाइनल में किंग्स इलेवन पंजाब को तीन विकेट से हराया। इसके लिए उसे 15 करोड़ रुपये का चैक मिला।

गंभीर ने पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, “पहले सात मैच के बाद हम यहां थे। बहुत अधिक लोगों ने नहीं सोचा होगा कि हम खिताब जीतेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। पूरी टीम को जीत का श्रेय जाता है।”

केकेआर ने मनीष पांडे की 94 रन की पारी की मदद से फाइनल में 200 रन का लक्ष्य हासिल किया। इस बारे में गंभीर ने कहा, “इस मैदान पर स्कोर का बचाव करना मुश्किल था। हम पांच ओवर में 50 या 60 रन बनाना चाहते थे। मनीष ने बेहतरीन पारी खेली। यूसुफ (पठान) ने अच्छे शॉट लगा। जबकि पीयूष चावला ने महत्वपूर्ण छक्का लगाया। उनकी तरफ से रविधर्मान साहा ने अवश्वसनीय पारी खेली लेकिन मनीष ने बेबाक पारी खेली।”

किंग्स इलेवन के कप्तान जॉर्ज बैली ने केकेआर और विशेषकर पांडे को उनकी पारी के लिए बधाई दी लेकिन साथ ही कहा कि अपनी टीम के फाइनल तक के सफर से वह खुश है। बैली ने कहा, “हमारे पास खास खिलाड़ियों की टीम है। हमारे लिये बेहतरीन टूर्नामेंट रहा और हमारे खिलाड़ियों को गर्व से सरि ऊंचा कर सकते हैं।

मनीष पांडे को उनकी 94 रन की पारी के लिये मैन ऑफ द मैच चुना गया। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने कहा कि इस सत्र में चार खिताब जीतना सोने पर सुहागा जैसा रहा। कर्नाटक ने इस वर्ष रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी।

उन्होंने कहा, “मैंने चार उपलब्धियां हासिल कीं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और आईपीएल तो सोने पर सुहागा है। मैं आशावादी था और मैं महत्वपूर्ण

मैच में अच्छी पारी खेलना चाहता था। हमने पहले ओवर में दस रन बनाए और उस समय मुझे लगा कि यदि हमने यही लय बनायी रखी तो खिताब जीत सकते हैं। ”

अक्षर पटेल को मर्जगि प्लेयर चुना गया। उन्होंने कहा, “कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इस दौर में थे लेकिन उनके बीच इस पुरस्कार के लिए चुने जाने से मैं गौरवान्वति महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे मुझे आगे फायदा मिलेगा। ”

केन्नेथार केरोबिन उथप्पा को टूर्नामेंट में सर्वाधिक 660 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप और चेन्नई सुपरकिंग्स के मोहति शर्मा को सर्वाधिक 23 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दी गई। ग्लेन मैक्सवेल को मोस्ट वैल्यूविल खिलाड़ी चुना गया।

उथप्पा ने कहा, “मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी टीम की जीत में योगदान दिया। यदि मुझे कपारी चुननी होगी तो वह मुंबई इंडियन्स के खिलाफ (कटक में 80 रन) खेले गई पारी थी जिसमें पांच के उंगलियों में चोट के बावजूद मैं खेला था। ”

पर्पल कैप पाने वाले मोहति ने कहा, “पछिले सत्र तक मैं शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजी करता था लेकिन इस साल मैंने काफी स्लॉग ओवर भी किए। मैंने काफी कुछ सीखा। मैंने अपनी कमजोरियों का पता लगाया और अगले सत्र से पहले मैं उन पर काम करूंगा। ”

(भाषा)